

CIN: L45309DL2017PLC323467

DEEPAK BUILDERS &

ENGINEERS INDIA LIMITED

Date				

Date: 4th September, 2025

To

Ref. No. :

The Manager

Listing Department

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G

Bandra -Kurla Complex, Bandra (East)

Mumbai - 400 051

Trading Symbol: DBEIL

The Manager

Listing Department

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Tower

Dalal Street,

Mumbai - 400001

Script code: 544276

Sub:- Newspaper publication of 8th Annual General Meeting of the Company and e-voting information

Dear Sir/Ma'am

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the epaper newspaper advertisement published today i.e. Thursday, September 04, 2025, intimating about the 8th Annual General Meeting of the Company and e-Voting information. The advertisement was published in the following newspapers:

a. Financial Express (English)

b. Jansatta (Hindi)

Kindly take the above information on your records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Deepak Builders & Engineers

(Anil Kumar)

Company Secretary & Com-

Anil

dia Limited

Kumar

by Anil Kumar Date: 2025.09.04 1521:40 +05/30

Encl: as above

Corporate Office: Near Lodhi Club, Shaheed Bhagat Singh Nagar, Ludhiana -141 012 (Punjab) Tel.: +91-161-2560106

Mobile: +91-98759-09240 E-mail: info@deepakbuilders.co.in, deepakbuilders1987@gmail.com

Regd. Office: Ahluwalia Chambers, 1st Floor, Plot No.16 & 17, Local Shopping Centre, Madangir, Near Pushpa Bhawan,

New Delhi - 110 062

FINANCIAL EXPRESS



AJANTA SOYA LIMITED CIN L15494RJ1992PLC016617

Regd. Office: SP- 916, Phase-III, Industrial Area, Distt. Alwar, Bhiwadi 301 019, Rajasthan Ph. No. 911-6176727, 911-6128880

Corp. Office: 12" Floor, Bigjo's Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi-110 034 Ph. No. 91-11-42515151, Fax: 91-11-42515100

INFORMATION REGARDING 34th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

Website: www.ajantasoya.com, E-mail: cs@ajantasoya.com

Notice is hereby given that the 34" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Ajanta Soya Limited will be held on Tuesday, 30" September, 2025 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder, read with General Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024, along with previous circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs in this regard, as well as Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), together with other circulars issued by SEBI in this regard (collectively referred to as "Circulars"), and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact the business(es) as set out in the Notice of AGM ("Notice"), which shall be circulated in due course. The deemed venue of the AGM shall be the registered office of the Company.

Members can attend and participate in the AGM only through the VC/OAVM facility Members participating through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In accordance with the above Circulars, the Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent electronically only to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be dispatched to those Members who specifically request the same. The Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024–25 will also be made available on the websites of the Company (www.ajantasoya.com), the stock exchange where the Company's shares are listed (www.bseindia.com), and the National Securities Depository Limited www.evoting.nsdl.com).

Additionally, the Company will send a letter providing the web link (including the exact path to the Annual Report and Notice of AGM) to those Members whose email addresses are not egistered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") / Depository Participant(s).

In compliance with the applicable statutory provisions, the Company will provide it Members with the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM in respect of all businesses to be transacted at the AGM. Detailed instructions regarding the e-voting facility and the procedure for joining the AGM shall be provided in the Notice.

Members who have not registered or updated their email addresses are requested to do so as per the following instructions:

Physical Holding:

Members holding shares in physical form are requested to register / update their email addresses by submitting duly filled and signed copies of Form ISR-1, along with relevant documents, to the RTA at the following address:

Skyline Financial Services Private Limited D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110020

Contact No: 011-40450193 to 97

Demat Holding: Members holding shares in demat form are requested to contact their Depository

Participant (DP) and register their email addresses in their demat accounts, as per the

process prescribed by the DP All Members holding shares in physical mode are mandatorily required to furnish / update their email ID, mobile number, PAN, and other KYC details through Form ISR-1; to furnish the nomination through Form SH-13; to opt out of nomination through Form ISR-3; or to change nomination through Form SH-14, pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated 7th May, 2024. These forms are also available on the Company's website (www.ajantasoya.com). Members may further note that, pursuant to SEBI's mandate, Members holding shares in physical mode whose folios do not have updated KYC details shall, with effect from 1" April, 2024, be eligible to receive any payment (including dividend, interest, or redemption) only through electronic mode.

 With their Depository Participant (DP) with whom they maintain their demat account, if shares are held in dematerialised mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant(s); and

Members are requested to register/update their complete bank details:-

With Skyline Financial Services Private Limited (RTA) by submitting duly filled and signed Form ISR-1 along with requisite supporting documents at its aforesaid address, if shares are held in physical mode.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, the instructions for joining the AGM and for casting their votes through remote e-voting or e-voting during the AGM.

For Ajanta Soya Limited Date: 3" September, 2025

Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

MARC LOIRE FASHIONS LIMITED

(Formerly known as Marc Loire Fashions Private Limited) Plot No. 426/1, First Floor, Rani Khera Road, Mundka, New Delhi-11004 CIN: U18202DL2014PLC266184 Website: www.marcloire.com, Email: finance@marcloire.in, Ph: +91-6200962002

NOTICE OF 12" ANNUAL GENERAL MEETING, THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC), E-VOTING INFORMATION, AND CUT-0FF DATE

NOTICE is hereby given that the 12th Annual General Meeting(AGM) of the members of the Company will be held on Saturday 27" September, 2025, at 11:00 AM (IST) THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) to transact the business as set out in the Notice convening the AGM without physical presence of members at common venue. This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General circular No. 9/2024 dated 19th September, 2024. General Circular no.09/2023 dated September 25, 2023, General Circular no.14/2020 dated April 8 2020, Circular no.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular no.20/2020 dated May 5 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (Collectively referred to as 'MCA Circulars'), Further, SEBI vide its circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 2022 January 5, 2023, 7" October 2023 and 3" October 2024 has allowed listed entities to send their Annual Report in electronic mode ('SEBI Circular').

Electronics Copies of Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31" March, 2025 have been sent electronically to all the Members whose e-mail addresses are registered with the company/Registrars & Transfer Agent (Registrar/RTA)/ Depository Participants (DPs). The Company shall send a physical copy of the AGM Notice and Annual Report to those Members who request the same at csyasant@marcloire.in mentioning their Folio no .DP ID and Client

Members may note that the e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2024-25 of the Company will also be made available on the website of the Company at www.marcloire.com and on the website of NSDL at www.eyoting.nsdl.com and website of Bombay Stock Exchange Limited ("BSE") at

Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility ONLY. The detailed instructions for joining the meeting and procedure for e-voting or for casting of vote through e-voting system during the AGM have been provided in the notice of the AGM which has been sent to all the shareholders. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum in terms of Section 103 of the Companies Act, 2013.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015), the Company is providing to its members, facility to exercise their votes electronically on the resolution set out in the notice. The Company has engaged the Services of National Securities and Depositories Limited ("NSDL") for providing remote e-voting facility. The details and instructions for remote e-voting and voting at the AGM forms part of the

CUT OFF DATE AND E-VOTING PERIOD

Place: Delhi

Date: 02/09/2025

a) The company is providing e-voting facility to its members holding shares as on Saturday, September 20, 2025, being 'cut-off date', to exercise their vote at the ensuing AGM.

 E-voting period commences on Tuesday, September 23, 2025 at 9:00 AM and ends. on Friday, September 26, 2025 at 5:00 P.M. Additionally, the Members who have not registered their email address can cast their vote through e-voting system during the AGM by following the procedure mentioned in the notice of the AGM. For the process and manner of E-voting members may go through the instructions mentioned in the Notice of 12" AGM of the Company. A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

INSTRUCTIONS FOR UPDATION OF E-MAIL ADDRESS/BANK ACCOUNT MANDATE:

In Order to receive notice and Annual report, members are requested to register/update their e-mail addresses with the Registrar and Share Transfer Agent. Members holding share in Demat form can get their E-mail ID's registered by contacting their respective Depository Participants

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for

Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdi.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com All shareholders/members attending AGM through VC or OAVM, who wish to speak or

pose questions shall register themselves and send their queries, if any, on or before 25/09/2025 (5,00 p.m. IST) with their name, DP ID and Client ID/folio number, PAN mobile number & number of shares and subject line should be Speaker Registration of Marc Loire Fashions Limited at the e-mail id of the Company i.e. csvasant@marcloire.in.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars issued from time to time.

For MARC LOIRE FASHIONS LIMITED

Vasant Kuber Soni Company Secretary & Compliance officer

M. No.: A66674

JAY USHIN LIMITED GI-48, G.T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi- 110033

CIN: L52110DL1986PLC025118, Website: www.jpmgroup.co.in, E-mail: julinvestors@jushinindia.com Phone: 91(124)-4623400

INFORMATION REGARDING 39TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of Members of M/s. Jay Ushin Limited ("Company") will be held on Monday, September 29, 2025 at 11.00 A.M. Indian Standard Time (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary & Special businesses as set out in the Notice of the AGM. In compliance with Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('MCA') circular No. 9/2024 dated 19th September, 2024, read with circulars issued earlier on the subject (collectively referred to as "MCA Circulars') & SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 and all other applicable laws, rules, regulation issued by Ministry of Corporate Affairs, Securities & Exchange Board of India, as amended from time to time

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, and in compliance with the Listing Regulations, the Annual Report for the Financial Year 2024-25 ("Annual Report") along with the Notice of AGM will be sent only through electronic mode to those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of the 39th AGM along with Annual Report for Financial Year 2024-25 shall be sent to those Members who request for the same. If your e-mail ld. is not registered, then the below mentioned procedure may be followed:

To access the Annual Report for Financial Year 2024-25 along with the Notice of AGM, can be downloaded from the following link https://jpmgroup.co.in//upload/annual reports voting results/Jay-Ushin-Annual-Report-2025 03-09-2025-11-18-17.pdf. The same is also available on the websites of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com and the Stock Exchanges i.e. BSE Limited www.bseindia.com respectively.

For Shareholders who hold Shares in Physical mode:

Shareholder should furnish their e-mail Id., mobile number & other details in Form ISR-1 along with other relevant forms as prescribed by SEBI to the Company's Registrar and Transfer Agent, RCMC Share Registry Private Limited on investor.services@rcmcdelhi.com

For Shareholders who hold Shares in Demat mode:

Shareholder should update their e-mail ld. in their Demat Account as per the process advised by their respective Depository Participant.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only, and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The instructions for joining the AGM and the detailed procedures for e-voting provided in the Notice of

The Company has fixed the Saturday, September 19, 2025 as the record date for determining entitlement of members for payment of final dividend for FY 2024-25, if approved in AGM, and to avail the facility of remote evoting / voting at the meeting.

Shareholders are also informed that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules as framed thereunder, as amended from time to time, the Register of Members & Share Transfer Books will remain closed from September 20, 2025 to September 29, 2025 (both days inclusive) for the purpose of 39th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company to be held on Monday, September 29, 2025 at 11:00 A.M. Indian Standard Time (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM").

For Jay Ushin Limited

Jyoti Kataria Company Secretary

Kapil

AVON MERCANTILE LIMITED

CIN: L17118UP1985PLC026582 Regd. Office: Upper Basement, Smart Bharat Mall, Plot No.I-2, Sector - 25A, Noida Gautam Buddha Nagar (Uttar Pradesh-201301)

Phone: 0120-3355131 E-Mail: avonsecretarial@gmail.com, Website: www.avonmercantile.co.in VOTICE OF 40™ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 40" Annual General Meeting (AGM) of the members of AVON MERCANTILE LIMITED ("the Company") will be held on Friday, 26" Day of September 2025 at 01:30 P.M. without physical presence of the members at a common venue, in compliance with all the applicable provisions of companies act, 2013 (ACT) and rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirement regulations), 2015 read with General Circular Nos. Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/ 2020 dated May 05, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022, General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and the latest one being General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/DDHS/DDHS_Div2/P/CIR/2022/079 dated 3rd June, 2022, SEBI/HO CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("Circulars") issued by SEBI and other applicable circulars issued in this regards (collectively referred to as "Circulars"), to transact the business as set out in the Notice of 40° AGM.

Electronic Copies of Notice of AGM and Annual Report

In compliance with the provisions of the Act, the Rules framed thereunder, MCA Circulars and SEBI Circular dated 12th May, 2020, electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 has been sent to all the Shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) on September 02, 2025. Shareholders may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2024-25 are available on the Company's website at https://www.avonmercantile.co.in/ and on the websites of the Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are listed, i.e., BSE i.e. https://www.bseindia.com/

Participation in AGM through VC/OAVM:

Shareholders can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only [which is being availed by the Company from National Securities Depository Limited (NSDL), the details of which are provided by the Company in the Notice of the AGM. Shareholders attending through VC / OAVM shall be counted for the purpose of the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Manner of Registering/updating email-addresses

 a) Members holding shares in physical form, who have not registered their email id with the Company can obtain the Notice of the AGM, Annual Report and/or login details for casting of vote through remote e-voting and joining the AGM through VC/OAVM facility including e-voting by providing Folio No., Name of the Shareholder, Scanned Copy of the Share Certificates (front/back), PAN (self-attested copy of pan card) and AADHAR (self-attested copy of Aadhar card) to the e-mail address of the Company at avonsecretarial@gmail.com or to the RTAat admin@mcsregistrars.com.

Members holding shares in demat form, who have registered their email addresses with the Depository Participant(s), are requested to register/update their email addresses with their Depository Participant.

Manner of Voting on Resolutions placed before the AGM: The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") through National

Securities Depository Limited (NSDL) to its Shareholders to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM.

The manner of remote e-voting for Shareholders holding shares in dematerialized mode. physical mode and for Shareholders who have not registered their e-mail addresses will be provided in detail in the Notice of the AGM.

he Manner in which a) persons who become members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off Date; b) Members who have forgotten the USER ID and Password, can obtain/generate the USER ID and Password, has also been provided in the Notice of the AGM Stakeholders may note following points:

	Particulars	Date & Time
1.	End Date of Completion of Sending of Notices	3" September, 2025
2.	Cut-off Date for Remote e-voting	19 ⁸ September, 2025
3.	Commencement of Voting through Electronic Means	23 rd September,2025 at 09:00 AM (IST)
4.	End of Voting through Electronic Means	25 th September, 2025 at 5:00 PM (IST)
5.	Notice & Annual Report of the Meeting available on Website	https://www.avonmercantile.co.in/ annualreport.php
6.		Ms. Pallavi Mhatre, Sr. Manager, NSDL, Tradi World, 'A' Wing, 4" Floor, Kamala Mill

part of the	https://www.avonmercantile.co.in/
lebsite	annualreport.php
	Ms. Pallavi Mhatre, Sr. Manager, NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4 th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013 at the designated email id: evoting@nsdl.co.in, Call on the toll free no. 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000. Members may also write to

the company secretary at the company email

address at avonsecretarial@gmail.com

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disable by National Securities Depository Limited (NSDL)

The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not entitled to cast their votes

Joining the AGM through VC/OAVM: The information about login credentials to be used and the steps to be followed for

Place: Noida

Date: 03.09.2025

connected with E-Voting

attending the AGM are explained in the Notice of AGM. Members are requested to carefully read the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or

e-voting at the AGM. For Avon Mercantile Limited

> Disha Soni Company Secretary ACS 42944

PUBLIC NOTICE

[Under Section 102 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016] FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF Mr. Kushal Kumar Pachani (Personal Guarantor of Hi Rise Infratech Private Limited

79. Paratap Nagar, Jal Road, New Delhi - 110064) Notice is hereby given that the Horible National Company Law Tribunal, Gawahati Bench, by Order dated 28.08.2025 passed in CP(IB)/20/GB/2023 [Indian Bank (Embyhila Allahabad Bank) -vs- Kushal Kumar Pachani (PG) I filed under Section 95 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, has initiated Insolvency Resolution Process of Mr. Kushal Kumar Pachani and has appointed Ms. Sudha Sarma as the Resolution Professional. Accordingly, the Creditors of Mr. Kushai Kumar Pachani are hereby called upon to submit their claim in Form E of IBBI (Insolvency Resolution Process for Personal Guaranters to Corporate Debtors) Regulations, 2019 along with proof thereof, to the Resolution Professional on or before 25.09.2025 by email, courier, speed post or registered post at her address stated below.

Details of Personal Guarantor

bearing CIN: U70105OL2006PTC154701 and having registered office at

1.	Name of Personal Guarantor	Mr. KUSHAL KUMAR PACHANI
2	Address of Personal Guarantor	Shanti Kheira, Kataki Pukhuri, Bye Pass, Bye Lane No. 1, PO: RRL, District: Jorhat, Assam
3.	PAN of Personal Guaranter	ACINPP2030G
4.	Date of Commencement of Insolvency Resolution Process	28.08.2025 (Order uploaded on 29.08.2025)
5	Estimated Date of Closure of Insolvency Resolution Process	24.02.2026
6.	Last Date for Submission of Claim	25.09.2025
	Details of Resolu	tion Professional
7.	Name of Resolution Professional	Sudha Sarma
8.	IBBI Regs Number of Resolution Professional	IBBMPA-002/IP-N01251/2022-2023/14266
9.	AFA Number & Validity of Resolution Professional	Number: AA2/14266/02/300626/203808 Valid upto : 30.06.2026
10,	Address of Resolution Professional	M/s Suchs & Associates 185, M.R.D. Road, Near SBI, Bamunimaidam, Guschat, PIN: 781021 EMAILID: sudha.sarma@yahoo.com Mobile No: 98640 50249
Dati	m form is available at https://www.ibbi.gov.in/h a : 04.09.2025 aa : Guwahas	omeidownfloads. Sd/- Sudha Sarma Resolution Professional

STEEL STRIPS INFRASTRUCTURES LIMITED

CIN: L27109PB1973PLC003232

Regd. Off: Village Somalheri/ Lehli, P.O. Dappar, Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali (Pb.)-140506 Tel : +91-172-2793112, Fax: +91-172-2794834

Email: ssl_ssg@glide.net.in. Website: www.ssilindia.net NOTICE OF 52" ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE.

Notice is hereby given that:

1. The 52" Annual General Meeting (52" AGM) of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the September 30, 2025 at the Registered Office of the Company at 11:30 a.m. at Regd. Off. Village Somalheri/Lehli, P.O. Dappar, Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali (Pb.) to transact the business as set out in the notice dated 13.08.2025 Copies of the Notice of the 52" AGM (Notice) and Annual Report of the Company for the

financial year 2024-25 were sent to all the members at their registered address in physical mode and in electronic mode to those members whose e-mail id registered with the Company/ Depository Participant(s). The dispatch has been completed on September 2. 2025 and the same is also available on the Company's website www.ssilindia.net Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cutoff

Business(es) as set out in Notice through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). 4. Any person who becomes member of the Company after dispatch of Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2025 may follow the same instructions as mentioned in the notice of AGM for remote e-voting. If the member is already registered with CDSL for remote e-voting, he can use his existing User Id and

date of September 23, 2025, may cast their vote electronically on Ordinary and Special

password for casting vote through remote e-voting. 5. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at AGM. In case of voting by both the modes, vote casted through remote e-voting will be considered final

6. The members are informed that (a) The remote e-voting shall commence on September

27, 2025 at 9:00 a.m. and end on September 29, 2025 at 5:00 p.m. (b) Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 pm on September 29, 2025. (c) In case of any quenes relating to voting by electronic means, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at download section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 18002109911, or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL by sending an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder

the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 24, 2025 to September 30, 2025 (Both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting (AGM). For STEEL STRIPS INFRASTRUCTURES LIMITED

Sanjay Garg

Managing Director

Date: 03.09.2025 Place: Chandigarh

Note:. Members holding shares in Physical Form are requested to update their KYC details i.e. PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature with RTA and members holding shares in Demat Form are requested to update their KYC and nomination with their Depositories concerned, if not already done pursuant to SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated ?" May, 2024. Available on Web-link:- https://www.ssifindia.net/kyc2022.html Web-link: https://www.ssilindia.net/a.html has been provided for downloading Annual Report for FY 2024-25, for those members who have not registered their email address with the Company/ DP/ RTA.

HERO HOUSING FINANCE LIMITED Contact Address: A-6, Third Floor, Sector-4, Nolda - 201301 Regd. Office: 09, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057

Hero Housing Ph: 011 49257000, Toll Free No: 1800 212 8800, Email: customer.care@herohfl.com Website: www.herohousingfinance.com | CIN: U65192DL2016PLC30148 DEMAND NOTICE

Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules" Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Hero Housing Finance Limited (HHFL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Rules already

ssued detailed Demand Notices dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s) Co-Borrower(s) Guarantor(s) (all singularly or together referred to "Obligors") Lega Heir(s)/Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amounts mentioned in the respecti-Demand Notice's, within 60 days from the date of the respective Notice's, as per details given below copies of the said Notices are served by Registered Post A.D. and are available with the undersigned and the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours

In connection with the above. Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s) /Legal Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to HHFL, within 50 days from the date of the respective Notice's, the amounts indicated herein below against their respective names, together with urther interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents writings if any, executed by the said Obligor(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to HHFL by the said Obligor(s) respectively. Name of Obliggerist Legal Total Outstanding Due Date of Date of

Account No.	Heir(s)/Legal Representative(s)	Rs. as on below Dates		NPA
Control of the control of the control	DINESH KUMAR, SUMAN LATA	Rs. 16,65,582/- as on 19-Aug-2025	25-08-2025	04-08-2
	the Secured Assets / Immovabl and Floor, Front Lhs Unit Without	Roof Rights, Built On P	lot No A-96, Kha	

Having Area Measuring 573 Sq. Ft Le 53,23 Sq. Mtrs Rail Vihar Sehkan Awas Samit Limited, Village Sadullabad, Tehsil Loni, District Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201102, East: Plot No. A-97, West; Plot No. A-95, North: 30 Ft wideroad, South: Plot No. A - 105 HHFLAXHOU Ravi Son Of Rajender. Rs. 31,44,119- 21-08-2025 04-08-2025 as on 19-Aug-2025 22000025334, Rinku Son Of Rajender

22000026027 Wife Of Rajender	
Description of the Secured Assets / Immovable	Properties / Mortgaged Properties:- Entire Built
Ground Floor Without Roof Rights Of Freehold Pr	아이들도 이 없이 되는데 얼마나 보다면서 아이들이 되었다면 하는데 없는데 아이들이 되었다면 하는데 아이들이 되었다면 하는데 없다.
Eastern Side Area Measuring 75 Sq. Yds. 1.e. 62.7	

HHFLAXLAP Sadhna Wife Of Ravi. Raibala

roperty: South: 14 Feet 5 Inch Rasta 20 Feet Wide

Property No. 38. North: Hanuman Road: 30ft, South: Gali 10 Ft. HHFLAXHOU Vishant Son Of Dara Singh, Rs. 18,32,885- 25-08-2025 04-08-2025 22000024782 Sonam Daughter Of Dara Singh | as on 19-Aug-2025 Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:-residential Fla No. St.5, Mig Second Floor With Roof Rights, Right Hand Back Side (rear Rhs) Consisting Of One Drawing Room/dinning Room, Two Bedrooms, Two Tollets, One Kitchen And One Balcony Having Total And

39 Bounded As: East: Park, West: 9 Mts, Wide Road, North: Other Land, South: Pict No B-38 HHFNOILAP Savita Rawat, Dharam Pal Rs. 16,66,103/- 21-08-2025 04-08-2025 22000030961 Singh, Kamla Rawat as on 19-Aug-2025

Covered Area Measuring 523 Sq.Ft Le. 48.58 Sq. Mir Constructed On Plot No 39 Block B "SLF Ved Vihar"

Haribest Village Sadullabad Pargana And Tehsil Loni District Ghaziabad, Uttar Pradesh. Plot No. 8

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: - MCF NO. 403, Gall No. 5a, Plot Area Measuring 120 Sq. Yd. 4/106 Part Of Arazi Mu No. 5 Killa No. 15/2(5-6) Area Measuring 5 Kanal 6 Marla, Situated Al Mauza Uchagaav (thoodalt Colony) Tehsil Ballabgarh Dist. Faridabed Haryana- 121004. Bounded as: East: Plot Of Khem Karan Shanna. West: Other's Plot North: Land Of Shayam Sunder And Others: South: Rusta 20 Ft Wide HHFNSPHOU Anand Kumar Thakur, Rs. 42,89,092/- 22-08-2025 04-08-2025 24000049245 Ankita Raj as on 19-Aug-2025

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: - Upper Ground loor Front Side Portion Without Roof Rights Of Built Up Property Bearing No 32, Area Measuring 198 Sq. Yds Out Of Total Area Measuring 152 Sq Yds., Out Of Khasra No 105/17/2 Situated in The Area Of Village Palam Delhi, Colony Known As In Block- F, Raja Puri Uttam Nagar New Delhi- 119059, Bounded As: East: Other Plot. West: Purtion Of Said Plot, North: Gal. South: Road 20 Ft. HHFAGRHOU240000 Atul Shakya, Sanjay Shkaya, Rs. 15,18,550- 25-08-2025 04-08-2025

60514, HHFAGRIPL Kamlesh Shakya as on 19-Aug-2025 24000060649 Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:- House Built On Plot No 113 Khasra No. 1292/17 & 1292/33 Mi Having Area 75.25 Sc Yards I.e 62.91 Sq Meters utaed in Udayram Vihar Colony Near Garhi Jiyannam, Mauza Naraich Tehsil Etmadpur Distt, Agra,

Uttar Pradesh East: 47 Feet Plot No. 112, West: 47 Feet Plot No. 114, North: 14 Feet 5 Inch Other's

HHFAGRLAP240000 Rakesh Kumar, Thakur Son Rs. 10,83,032 - 22-08-2025 04-08-2025 51316 & HHFAGRLA Of Kumar Sen, Sarsvati as on 19-Aug-2025 P24000051420 W/o Thakur, Raj Kumar Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: - All That Piece And Parcel Of Plot Admeasuring 136.11 Sq. Yds. Mil Khaara No 336 Situated At New Abadi Nandoura New

with further interest, additional interest, at the rate as more particularly stated in respective Deman Notice dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of paymen and/or realization. If the said Obligor(s) shall fail to make payment to HHFL as aforesaid, then HHFL shall proceed against the above Secured Asset(s)/immovable Property(les) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Obligon's) Legal Herrisi Legal Representative (s) as to the costs and consequences

The said Obligor(s):Legal Heir(s):Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the

Ratan Vatika Deon Road Tehsil & Dist. Agra, Uttar Pradesh- 282001, Bounded As: East: House Of

Raghuveer Singh, West: House Of Gabbar Singh, North: 8 Ft Wide Road, South: House Of Rambabu

aforesaid Secured Asset(s)/Immovable Property, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of HHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act. DATE : 04-09-2025, Sd - Authorised Officer For HERO HOUSING FINANCE LIMITED PLACE: Delhi/NCR

POSSESSION NOTICE

Whereas, the authorized officer of Jana Small Finance Bank Limited under the Securitization And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued demand notices to the borrower(s)/ Co-borrowers(s) calling upon the borrowers to repay the amount nentioned against the respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices within 60 days from the date of receipt of the said notices, along with future interest as applicable incidental expenses, costs, charges etc. ncurred fill the date of payment and/or realisation.

Sr. No.	Loan No.	Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagor	13(2) Notice Date/ Outstanding Due (in Rs.) as on	Date/ Time & Type of Possession
1	45128958824791 & 45129670000304	M/s. Shri Balaji Trading, Represented by its Proprietor Mr. Narsingh Yadav, Mr. Narsingh Yadav (Borrower), Mrs. Saroj Devi (Guarantor)	13.06.2025 Rs.8,74,187/- (Rupees Eight Lakhs Seventy Four Thousand One Hundred and Eighty Seven Only) as on 12.06.2025	Date: 29.08.2025 Time: 03:16 P.M. Symbolic Possession

Description of the Property; Plot No.G-90, Land Area Measuring 50 Sq.yards, out of Khasra No.100/24, situated in the area of Village Karala and Abadi known as Rajiv Nagar, Delhi. Owned by Mr. Nar Singh, S/o. Sh. Ramji Yadav. Bounded as: East: Plot No.G-91, West: Plot No.G-90, North: Road 20" Fts, South: G 90-B.

Whereas the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors, mentioned herein above have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the Borrower's mentioned herein above in particular and to the Public in general that the authorised officer of Jana Small Finance Bank Limited has taken possession of the properties/ secured assets described herein above in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said act read with Rule 8 of the said rules on the dates mentioned above. The Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors mentioned herein above in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid properties/ Secured Assets and any dealings with the said properties/ Secured assets will be subject to the charge of Jana Small Finance Bank Limited. Place: Delhi NCR

Sd/- Authorised Officer-

For Jana Small Finance Bank Limited

Challaghatta, Bangalore-560071. Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005.

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)

Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 &

12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park,

JAUSS POLYMERS LIMITED

Date: 04.09.2025

SECTOR-135, NOIDA-201301 REGD. OFF- PLOT NO 51, ROZ KA MEO INDUSTRIAL AREA, SOHNA, GURUGRAM-122103 EMAIL ID: response@jausspolymers.com, WEBSITE: www.jausspolymers.com PH. 0120-7195236-39, CIN: L74899HR1987PLC066965

NOTICE OF THE 38th ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of Jauss Polymers Limited will be held at 09:30 AM on Tuesday, 30th September, 2025 at Hakim Ji Ki Chougal, Opp. Batra Hospital, Vilt. Ujina, Police Station Nuh, Sohna, Haryana-122103 to transact such business as set out in the Notice of AGM ("Notice").

Notice along with Annual Report for 2024-25 have been sent through electronic mode to all the

members whose entail ids are registered with company/Depository Participants. The dispatch of

Notice and Annual Report (both physical and electronic) was completed on 13rd September, 2025.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed Wednesday, September 24, 2025 to Tuesday, September 30, 2025 (both days inclusive) for the purpose of the AGM. in compliance with Section 198 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with Company is pleased to provide all its members holding shares either in physical or dematerialized

form at the close of business hours on the cut off data i.e Tuesday 23rd September, 2025, the acility to exercise their vote electronically on the business as set out in the Notice through remote e-voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The procedure and instructions for remote e-voting has been given under the Notice. The e-voting period will commence on Saturday, 27th September, 2025 at 09:00 am and

ends on Monday, 29th September, 2025 at 05:00 pm. The remote e-voting will be disabled by CDSL beyond the said date and time. The cut off date determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is

Tuesday 23rd September, 2025. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e Tuesday 23rd September, 2025, may obtain the User Id and password by following the same instruction for remote e-voting as mentioned in the Notice.

The members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting. Vote once cast by the members shall not be allowed to be changed subsequently. The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM to the members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the AGM

A person, whose name is recorded in the Register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut off date i.e Tuesday 23rd September 2025 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the AGM

The Notice along with Annual Report is available at the Company's website viz www.jausspolymers.com. The Notice is also available on the website of CDSL viz All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr.

Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542143. For Jauss Polymers Limited

Priya Parashar Dated: 03rd September, 2025 Company Secretary

DEEPAK BUILDERS & ENGINEERS INDIA LIMITED Regd. Office: Ahluwalia Chambers, 1st Floor, Plot No.16 & 17 Local Shopping Centre, Madangir, Near Pushpa Bhawan,

New Delhi-110062, Website: www.deepakbuilders.co.in CIN: L45309DL2017PLC323467 NOTICE OF THE 8TH ANNUAL GENERAL MEETING AND

E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the Eighth (8th) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Deepak Builders & Engineers India Limited (the Company) will be held on Saturday, 27th September, 2025 at 11:00 a.m. (IST) through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made theraunder and SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable circulars issued by

In accordance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 read with rules made thereunder and in line with the General Circular No. 09/2024 dated September 19,2024 and earlier circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the AGM of the company will be held through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the members at common venue. The deemed venue of the meeting shall be Registered Office of the company.

Ministry of Corporate Affairs and SEBI on this matter, to transact the

business as set out in the Notice of the AGM.

The Notice of the AGM alongwith Annual Report 2024-25, has been sent by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depository Participants as on 29th August, 2025. The company has also sent letter to the shareholders whose e-mail address not registered with the company RTA/Depository Participants for accessing the Annual Report of the

The Notice of AGM and Annual Report is also available on the website of the Company at https://www.deepakbuilders.co.in/wp-content/ uploads/2025/09/Annual-Report-2024-25.pdf and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also available on the website of Kfintech Technologies Limited at www.kfintech.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration)

Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is providing its members the facility to cast their votes electronically on all the resolutions set out in the Notice of AGM through M/s Kfintech Technologies Limited. The detailed instructions for remote e-voting are given in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on Tuesday, 23rd September, 2025 (9.00 a.m. IST) and ends on Friday, 26th September, 2025 (5.00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by Kfintech for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Company as on cut-off date i.e. Saturday, 20th September, 2025. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purpose only Dividend and Record date:

The Board of Directors in its meeting held on 4th June, 2025, have recommended a final dividend of Rs. 1/- per equity share (i.e. 10%) for the financial year ended 31st March, 2025. The dividend if approved by the members in the Annual General meeting will be paid within the stipulated time to those members whose names appear in the Register of Members as on record date. The Board has fixed September 20, 2025 as the record date for dividend purpose. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 21, 2025 to September 23, 2025 (both days inclusive) for the purpose of determining entitlement of members for the payment of Dividend. Members are requested to validate and update their bank account details to receive dividends directly into their bank accounts. Important information about tax deduction at source (TDS) on Dividend: The Shareholders may note that as per the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividends paid or distributed by Companies after 1st April, 2020 is taxable in the hands of the recipient. Therefore, the Company shall be required to deduct tax at source at the time of making payment of the final dividend to the shareholders. The rate of tax to be deducted depends on the residential status of the shareholder and documents submitted by the shareholder and accepted by the Company

Shareholders who are holding shares in dematerialised mode and have not registered or updated their email IDs and/or other KYC details are requested to register and update the same with their relevant depository

In case of any queries/grievances pertaining to e-voting of AGM, you may call on: 1800-309-4001 or send a request to Mr. N. Shyam Kumar, Senior Manager- Kfintech at einward.ris@kfintech.com

Date : 03.09.2025

Place : Ludhiana

New Delhi

For Deepak Builders & Engineers India Limited (Deepak Kumar Singal) Managing Director (DIN: 01562688)

epaper.financialexpress.com



अजंता सोया लिमिटेड सीआईएन L15494RJ1992PLC016617 पंजीकृत कार्यालयः एसपी– 916, फेज–।।। औद्योगिक क्षेत्र, जिला अलवर, मिवाडी 301 019, राजस्थान फोन नंबर 911-6176727, 911-6128880 निगम कार्यालयः 12वीं मंजिल, बिगजो टावर, ए-८, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर जिला केंद्र, दिल्ली-110034

फोन नंबर 91-11-42515151, फैक्स: 91-11-42515100 वेबसाइटः www.ajantasoya.com, ईमेलः cs@ajantasoya.com

वीडियो कॉन्क्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमी ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित होने वाली 34वीं वार्षिक आम बैटक (एजीएम) के संबंध में जानकारी

एततद्वारा सुचित किया जाता है कि अजंता सोया लिमिटेड के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फॅसिंग ('वीसी') / जन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ('ओएबीएम'') के माध्यम से, आयोजित की जाएगी। कंपने अधिनियम. 2013 ("अधिनियम") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपाल में, 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 के साथ, इस संबंध में कॉर्पोरेट मामलों र मंत्रालय द्वारा जारी पिछलं परिपत्रों के साध-साथ भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ज ('संबी'') द्वार परिपन्न सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी 2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024, साथ ही इस संबंध में सेबी द्वारा जारी अन्य परिपन्नों (जिन्हें सामृष्टिक रूप से "परिपन्न" कहा जाता है), और संबी (सुधीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार, एजीएम की सूचना (ध्सूचनार्ध) में निर्धारित व्यवसाय(व्यवसायों) का संचालन करने के लिए जिसे नियत समय में प्रसारित किया जाएगा। वार्षिक आम बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लंगे वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 व तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएवा

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक जाम बैठक (एजीएम) की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी जिनके ईमेल परे कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जो विशेष रूप से इसके लिए अनुरोध करेंगे। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइटों (www.ajantasoya.com), उस स्टॉक एक्सबॅड (www.bseindia.com). और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी

इसके अतिरिक्त, कंपनी एन सदस्यों को वेब लिंक (वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक की सूचन का सटीक पथ सहित) प्रदान करते हुए एक पत्र भेजेगी, जिनके ईमेल पते कंपनी । रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') / डिपॉजिटरी प्रतिमागी(ऑ) के पास पंजीकृत नहीं है। लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की खुविधा के

साथ-साथ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान होने वाले सभी व्यवसायों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। ई-वोटिंग सुविधा और वार्षिक जाम बैठक (एजीएम) में शामिल होने की प्रक्रिय के बारे में विस्तृत निर्देश सूचना में दिए जाएँगे। जिन सदस्यों ने पंजीकरण नहीं कराया है या अपना ईमेल पता अपबेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध

है कि वे निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार ऐसा करें: क. भौतिक होत्खिंगः

भौतिक रूप में श्रेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे फॉर्म रू-। की विधिवत भरी और हस्ताक्षरित प्रतियों के साथ, संबंधित दस्तावेजों के साथ, निम्नलिखित पते पर आरटीए को जना करके अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपनेट करें: स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विनेज प्राइवेट लिमिटेड,

डी-153 ए. प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-।, नई दिल्ली - 110020 संपर्क संख्याः ०11-40450193 से 97

ख. डीमैट होत्खिंगः डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खातों में अपने ईमेल पत्ते

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से फॉर्म ISR-1 के माध्यम से अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन और अन्य केवाईसी विवरण प्रस्तुत / अपबेट करना होगा,

फॉर्म एसएच-13 के माध्यम से नामांकन प्रस्तुत करना होगाय फॉर्म ISR-3 के माध्यम से नामांकन से बाहर निकलना होगा, या फोर्न एसएय-14 के माध्यम से नामांकन बदलना होगा, यह सब सेबी परिपन्न संख्या SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 विनांक 7 गई, 2024 के अनुसार है। ये फॉर्म कंपनी की वेबसाइट (www.ajantasoya.com) पर भी उपलब्ध हैं। सदस्य यह भी ध्यान दें कि,सेबी के आदेश के अनुसार, भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य जिनके फोलियों में अद्यतन केवाईसी विवरण नहीं हैं, वे 1 अप्रैल, 2024 से कंवल इलेक्ट्रोनिक मोड के मध्यम से कोई भी भूगतान (लाभांश ब्याज या मोचन सहित) प्राप्त करने के पात्र होंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत/अपडेट करें-

क. अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साब, जिसके पास वे अपना डीमेंट खाता रखते हैं. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे जाते हैं, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट(ओ) द्वारा आवश्यकतानुसार फॉर्म और

ख. स्काईलाइन फाइनॅशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) के साथ, यदि शेयर भौतिक मोट में रखे जाते हैं, तो जनके उपरोक्त पते पर आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत गर और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-- जमा करके।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें, विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने तथा रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

> अजंता सोया लिमिटेड के लिए हस्तावरकर्ता /

दिनांकः 3 सितंबर, 2025 स्थानः नई दिल्ली

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

POLYMED पॉली मेडिक्योर लिमिटेड

सीआहंएन : L40300DL1995PLC066923, फोन : 011-33550700, फैक्स : 011-26321894

ई-मेल : investorcare@polymedicure.com, देवसाइट : www.polymedicure.com वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)/ओएवीएम (अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमी) के माध्यम से आयोजित होने वाली पॉली मेडिक्योर लिमिटेड के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एतदहारा सुचित किया जाता है कि कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय (एमसीर) हारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021,21/2021, 02/2022,10/2022, 09/2023 अपेर 09/2024 अन्य राभी लागू कानूनों और भारतीय प्रतिभृति और विनिधय बोर्ड ('सेबी') परिपन्न संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/-पीओडी-2/पी/सीआईअर/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024, भारत सरकार और समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) हारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसायों को करने के लिए कंपनी के सदस्वों की 30वीं

वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को 10:00 बजे पूर्वा, भा.मा.स. वीडियो कॉन्फ्रोस ('बीसी')/अन्य ऑडियो यिनुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित को नाएगी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात 232-यी, तृतीय तल, ओखला औद्योगिक एस्टेंट, फेज-III, नई दिल्ली-110020 को वार्षिक आम बैठक के लिए स्थल माना जाएगा। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना, निदेशक की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और वित्तीय विवरण की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनां और रिमोट ई-बोटिंग विचरण उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में चेज दिए गए हैं

एजीएम की सूचना का ईमेल भेजने की पूर्णता तिथि 03 सितंबर, 2025 थी। यदि आपने कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ अपनी इंमेल आइंडी पंजीकृत नहीं को है, तो कृपया वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और ई-चोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतू अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने हेतु बाँचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

जिनके इंमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(याँ) के पास पंजीकृत हैं। शेयस्थारकों को वार्षिक रिपोर्ट के साथ

भीतिक धारिता शिवरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी की 30वों वार्षिक आम बैठक के लिए अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण और/या फॉर्म आईएसआर-1 में अन्य विवरण और सेवी द्वारा निर्धारित अन्य प्रासंगिक प्रपत्र कंपनी के रॉजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, हितीप तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-कह नई दिल्ली-110020, ईमेल आईडी: investor@masserv.com, चेबसाइट www.masserv.com को प्रस्तुन करें।

इस संबंध में सेबी हारा निर्धारित प्राप्तांगिक प्रपत्र आरटीए की वेबसाइट www.masserv.com और कंपनी की वेबसाइट www.polymedicure.com पर डाउनलोड टैब के अंतर्गत उपलब्ध हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे नोट करें और अपने विवरण समय पर अपडेट

कपया अपने डिपॉजिटरो पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। यदि कंपनी द्वारा लाभांश भगतान की योषणा की जाती है, तो कृपया एनएसीएच द्वारा लाभांश भूगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपना वीक विवरत भी अपदेट करें।

यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और सेबो (सुचीचद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के चिनियम 44 के अनुसार, कंपनी ने नेशनल सर्चिसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनर्सडीएल) हारा उनके पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से सभी व्यवसायों के लेन-देन के लिए ई-वोर्टिंग सुविधा की पेशकश की है ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना चोट डाल सकें। रिमोट ई-चोटिंग अवधि सीमवार, 22 सितंबर, 2025 (9:00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.) से शुरू हीकर बुधवार, 24 सितंबर, 2025 (5:00 बजे अप. भा.मा.स.) तक है। उक्त तिथि और समय के बाद किसी भी ई-बोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल हारा रिमोट ई-वोटिंग मॉहयूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजे जाने के बाद क्षेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता हैं और कट-ऑफ तारीख यानी गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 तक शेयर धारण करता है, वह www.evoting.nsdl.com पर या आरटीए, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को investor@masserv.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही रिमीट इं-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकत हैं, तो वे अपना वोट डालने के लिए अपने मौजदा यजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को इसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना बोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दुबारा बोट डालने के हकदार नहीं होंगे। मेसर्स पी.के. मिश्रा एंड एसोसिएटस (सदस्यता संख्या एफसीएस 4305 और सीपी संख्या 16222) के कार्यरत कंपनी सेक्रेटरीज को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संबोधक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक की सुचना के साथ संलग्न नोट्स में दी गई है। ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/शिकायत श्री अविनाश चंदा, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, पॉली मेडिक्योर लिमिटेड, 232-बी, तृतीय तल, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज-3, नई दिल्ली-110020, फोन-011-33550700, ईमेल: cs@polymedicure.com को भेजी जा

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) निवम, 2014 के निवम 10 के स्वथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और श्रेयर हस्तांतरण वहीखाते. वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से 19 मितंबर, 2025 से 25 सितंबर, 2025 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट के सटीक पाथ सहित वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र उन शेयरधारकों को भेजा जा रहा है जिनकी ईमेल आईडी आरटीए कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है।

वार्षिक आम बैठक की स्चना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.polymedicure.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com, तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

पॉली मेडिक्योर लिमिटेड के लिए

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 03.09.2025

अविनाश चंद्र कंपनी सचिव

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड _affIndia Shelter पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट – 15, छठा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुवाम, हरियाणा-122002

के लिए बिक्री सुचना

अचल सम्पत्ति की बिक्री

वितीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माग तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएना) नियम 8(5) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन नियमावली, 2002 (जिसे आमे "नियमावली" कहा जाएगा) के नियम 8(8) के तहत अचल आस्तियों की बिकी हेतु नीलामी बिकी सूचना एतदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रो), सह–कर्जदार(रो) तथा गारंटर(रो) अथवा उनके कानूनी वारिस/ सो प्रतिनिक्षियों को सूचना दी जाती है कि इंडिया शेल्टर फाइनैंस कापीरशन लिमिटेड (इसमें आगे प्रत्यामूत लेनदार कही गई है) के पास बंघक / प्रमारित निम्नवर्णित अवल सम्पत्ति / यां, जिनका कबजा प्रतिमृत लेनदार, पंजीकृत कार्यालय पता : छटा तल. प्लॉट - १५, इंस्टीट्युशनल एरिया, संक्टर-४४, गुरूगाम, हरियागा-122002 सीआईएन : यू85922एवआर1998पीएलसी042782 फोन नंबर +91-124-4131800 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा गारटरों से बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे वर्णित तिथि को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो नी है वहां है" अधार पर बेची जाएंगी। यह बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित स्थान पर की जाएंगी।

ऋण खाता नवर/ एपी नंबर और कर्जदार(रॉ) /सङ्-	थारा 13(2) के तहत मान कब्जा की तिथ और प्रकार सूचना की तिथि और राशि मीतिक कब्जा		सुरावत मृत्य रू 5,70,000/-	सम्पत्ति के निरोक्षण की तिथि एवं समय 23-09-2025	
कर्जदार(री) / गार्श्टर(री) का नाम	10072024 तथा	23-06-2025	(रूपवे पांच लाख सत्तर	िनरीबण का समय : पूर्वा 10.00 बजे से अप 05.00 बजे तक	
HLSRCHLONS000005039257/	 8. 6,18,345/— (रुपये छह लाख अठारह हजार तीन सी पैतालीस मात्र) बोली वृद्धि राशि 10,000/— 	कुल बकावा च 6,18,345/-	हजार मात्र)। धरोहर राशि जमा (ईएमडी)		
AP-10084550 श्री/श्रीमती अमनदीप कौर एवं श्री/श्रीमती कुलविंदर सिंह,		(कारते प्रश्न जाका अवस्था प्राचन सीच और	रू 57,000/- (श्रुपये सत्तावन हजार मात्र)		
				नीलामी की तिथि एवं समय 24-09-2025 (नीलामी समय : पूर्वा 10.00 बजे से अप 05.00 बजे तक)	

जिला श्रीगंगानगर-335001, कुल क्षेत्रफल 2500 वर्ग फीट, सीमा:- पूर्व- रास्ता, पश्चिम- गुरमेल सिंह, उत्तर- पाल सिंह, दक्षिण- रास्ता **ईएमढी जमा करने का स्थान तथा नीलामी का स्थान :** नंबर 1, प्रथम तल, ब्लॉक भी, मुखद्वारा रोड, निकट नानक दरबार, जी ब्लॉक, बीमंगानगर, a जैंड, राजस्थान–335001 **पुगतान की विधि**


सभी भुगतान इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किया जाएगा।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपवा प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.indiashelter.in देखें अथवा प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें – श्री विनय राणा (+91 7988605030)

वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड तिथि : 04-09-2025 स्थान : राजस्थान



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिक अंशदाई स्वास्थ्य योजना स्टेशन मुख्यालय (ईसीएचएस सैल) वायुसेना स्टेशन सरसावा ईमेल आई०डी० : oicechspolysarsawa@gmail.com



1. ईसीएचएस एयर फोर्स स्टेशन सरसावा निम्नलिखित पद के लिये ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक सरसावा, सहारनपुर (यूपी) में अनुबंध के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकरणीय/एक वर्ष की अतिरिक्त अवधिके लिये/प्रर्दशन के आधार पर अधिकतम आयु प्राप्त करने तक संलग्न करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित मानदंडों के अनुसार आवेदन आमंत्रित करता है। :--


नियुक्ति	-यूनतम योग्यता	रिक्ति की सं0	निश्चित परिश्रमिक
चिकित्सा अधिकारी	एमबीबीएस, न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव इंटर्नशिप के बाद। मेडिसिन/सर्जरी में अतिरिक्त योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी ।	01	Rs. 75,000/-
फार्मासिस्ट	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में बी.एससी. डिग्री या (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान स्ट्रीम (मौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) के साथ 10+2 उत्तीर्ण और (ii) भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में अनुमोदित डिप्लोमा और फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत और न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव	01	Rs. 28,100/-
लैब टैक	(i) बी.एससी. (मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी) या (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ मैट्रिकुलेशन / हायर सेकेंडरी / सीनियर सेकेंडरी (10+2) और (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और मेडिकल लैब में लैब सहायक के रूप में 03 वर्ष का अनुभव।	01	Rs. 28,100/-
डेंटल हीजेनिस्ट	डेंटल हाइजीन में डिप्लोमा धारक / कक्षा 1 डीएच / डोरा कोर्स (सशस्त्र बल) और डेंटल लैबोरेटरी में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	01	Rs. 28,100/-
चपरासी	शिक्षा—कक्षा ८ जीडी ट्रेड (सशस्त्र बल) एवं न्यूनतम ०५ वर्ष का अनुभव	01	Rs. 16,800/-
सफाईवाला	साक्षर एवं न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	01	Rs. 16,800/-
		-00	

2. आवेदन फार्म, पारिश्रमिक एवं नियम व शर्तों के लिए: कृपया वेबसाइट www.echs.gov.in देखें। अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया स्टेशन मुख्यालय (ईसीएचएस सेल) एयर फोर्स स्टेशन सरसावा, सहारनपुर (यूपी) से, मोबाइल नंबर +91-7889847591 और ई-मेल आईडी oicechspolysarsawa@gmail.com पर संपर्क करें। विवरण के लिए ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, एयर फोर्स स्टेशन सरसावा से भी संपर्क करें। भूतपूर्व पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथिः शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव के आधार पर सभी प्रमाणपत्रों की खप्रमाणित फोटोकॉपी के साथ अपेक्षित प्रारूप के अनुसार आवेदन ओआईसी, एसटीएन मुख्यालय (ईसीएचएस सेल) एयर फोर्स स्टेशन सरसावा, सहारनपुर (यूपी) में 28 सितम्बर 2025 को 12:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । 28 सितम्बर 2025 के बाद प्राप्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

4. साक्षात्कार तिथि, समय एवं स्थानः उम्मीदवार को 10 अक्टूबर 2025 को सुबह 0930 बजे स्टेशन मुख्यालय (ईसीएचएस सेल) एयर फोर्स स्टेशन सरसावा, सहारनपुर (युपी) पहुंचना होगा। (यदि साक्षात्कार की तारीख में कोई बदलाव होता है, तो बाद में एसएमएस के माध्यम से सुचित किया जाएगा) साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों को सभी मूल प्रमाण पत्र / मार्कशीट / डिग्री / मैट्रिक / 10+2 और ग्रेजुएशन / पोस्ट ग्रेजुएशन / डिप्लोमा / कोर्स, कार्य अनुभव, आधार कार्ड, डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, सर्विस रिकॉर्ड और दो पीपी आकार के रंगीन फोटो 🛮 साथ लाने होंगे। कोई टीए / डीए स्वीकार्य नहीं है। केवल पात्र उम्मीदवार ही आवेदन करें । केवल पात्र उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा ।

Note : - चयनित उम्मीदवारों को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले ईएचएस पॉलीक्लिनिक में 10 दिनों का ऑन जॉब प्रशिक्षण लेना होगा और ओआईसी ईएचएस पॉलीक्लिनिक से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।





paisabazaar

पीबी फिनटेक लिमिटेड

सीआईएन: L51909HR2008PLC037998

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट संख्या 119, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122001, हरियाणा फोनः 0124-4562900, फैक्सः 0124-4562907, वेबसाइटः www.pbfintech.in; ई-मेलः cosec@policybazaar.com; complianceofficer@pbfintech.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित होने वाली पीबी फिनटेक लिमिटेड की 17वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") के संबंध में सूचना

सदस्यों को सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), उसके तहत निर्मित नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") हारा जारी 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 और इस संबंध में जारी किए गए किसी भी अन्य परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के सभी लागू प्राक्धानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी 03 अक्टूबर, 2024 के परिपन्न संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 और इस संबंध में जारी अन्य लाग् परिपत्रों (सामृहिक रूप से "परिपत्र" संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन करने के लिए पीबी फिनटेक लिमिटेड ('कंपनी') की 17वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को 11 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) वीसी/ओएवीएन के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट ("वा**र्षिक रिपोर्ट"**) नियत समय में, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके नाम शुक्रवार, 29 अगरत, 2025 तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं और जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए")/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के पास पंजीकृत हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.pbfintech.in, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <u>www.nseindia.com</u> ई—वोटिंग एजेंसी यानी एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (**"एमयूएफजी"**) https://instavote.linkintime.co.in/ और कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") यानी एमयूएफजी की वेबसाइट www.in.mpms.mulg.com पर भी उपलब्ध होगा। वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना की भौतिक प्रतियों उन सदस्यों को भेजी जाएँगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे। इसके अतिरिक्त, उन शेयरधारकों को, जिन्होंने कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, एक पत्र भेजा जा रहा है जिसमें सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध होगा, जिसमें सटीक पाथ सहित वेब-लिक भी शामिल होगा।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीकाः

सदस्य इलेक्ट्रोंनिक वोटिंग सिस्टम ("ई-बोटिंग") के माध्यम से नोटिस में बताए अनुसार व्यवसाय पर अपना वोट डाल सकते हैं। डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर धारण करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए वोटिंग का तरीका, जिसमें रिमोटली वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") भी शामिल है, नोटिस में दिया जाएगा। एजीएम में भाग लेने वाले वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट कर सकेंगे।

ईमेल पता पंजीकृत/अपशेट करने का तरीकाः

दिनांक: 3 सितंबर, 2025

स्थानः गुरुग्राम

- क. भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, एमयुएफजी के साथ ई-मेल पते पंजीकृत करके। उनकी वेबसाइट www.in.mpms.mufa.com पर Investor Services टैब पर दिए गए लिंक पर विलक करें, ई–मेल पंजीकरण शीर्षक यूनें और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे नाम, डीपी आईडी / ग्राहक आईडी, पैन, मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी जैसे विवरण प्रदान करें। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य एमयूएफजी को mt.helpdesk@in.mpms.mufg.com या delhi@in.mpms.mufg.com पर ई-मेल भेज सकते हैं।
- ख. इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, कंपनी से सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके संबंधित डीपी के साथ डीमैट होल्डिंग्स के संबंध में अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करके।
- ग. उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने सीमित उद्देश्य के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है जिसके तहत सदस्य निम्नलिखित लिंक पर जाकर अपने ई-मेल पते अस्थायी रूप से अपडेट कर सकते हैं: https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email Register.html, सदस्य शेयरधारकों के संचार, जैसे वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 और एजीएम की सूचना, प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते अपडेट कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना और विषेश रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का तरीका या एजीएम में ई-वोटिंग को ध्यानपूर्वक पढें। यदि शेयरधारकों / सदस्यों को लोगिन / ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न हैं. तो ये instameet@in.mpms.mufq.com पर ई-मेल भेज

सकते हैं या फोन: 022-4918 6000 / 4918 6175 पर संपर्क कर सकते हैं या कंपनी के कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी को complianceofficer@pbfintech.in या cosec@policybazaar.com पर ई-मेल लिखें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार पीबी फिनटेक लिमिटेड के लिए

हस्ता./-

मास्कर जोशी

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्याः F8032

विषि : 04 नितंबर, 2025

दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिभिटेड

पंजीकृत कार्यालयः अहलूवालिया चेम्बर्स, प्रथम तल, प्लॉट संख्या 16 एवं 17, स्थानीय शॉपिंग सेंटर, मदनगीर, पुष्पा भवन के पास, नई दिल्ली-110062 वेबसाइटः www.deepakbuilders.co.in

सीआईएनः L45309DL2017PLC323467

आठवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग सूचना एततद्वारा सुचित किया जाता है कि दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की आठवीं (8वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को प्रात 11:00 बजे (भारतीय मानक समय) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता दावित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के सभी लागू प्रावधानों के साथ पवित, के अनुपालन में आयोजित की जाएगी इस मामले पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी परिपन्नों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित अनुसार कारोबार करने के लिए।

तथा 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपन्न संख्या 09/2024 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी पूर्व परिपत्रों के अनुरूप, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉनक्रेंसिंग (''वीसी'')/ अन्य दश्य-श्रव्य माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमे सदस्यों की सामान्य स्थल पर गौतिक उपस्थिति नहीं होगी। बैठक का अनुमानित स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25, उन सदस्यों को

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते 29 अगस्त, 2025 तक कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के पास पंजीकृत हैं। कंपनी ने उन शेयरधारकों को भी पत्र भेजा है जिनके ई-मेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं हैं, ताकि वे कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट देख सकें।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी https://www-deepakbuilders.co.in/wp-content/uploads/2025/09/Annual Report-2024-25-pdf पर और स्टॉक एक्सबेंजों की वेबसाइटा www,bseindia,com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। साथ ही, केफिनटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट www.kfintech.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम् 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को मेसर्स केफिनटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से एजीएम के नोटिस मे निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोट देने की सुविधा प्रदान कर रही है। दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 (सुबह 9:00 बजे IST) से शुरू होती है और शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 (शाम 5:00 बजे फे) को समाप्त होती है। इसके बाद केफिनटेक द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा सदस्यों के मताधिकार, कट-ऑफ तिथि अर्थात शनिवार, 20 सितंबर, 2025 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन बैठक में दोबारा वोट देने के हकदार नहीं होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सूचना को केवल सुचना के उदेश्य से ही लेना चाहिए।

लाभांश और रिकॉर्ड तिथि:

निदेशक मंडल ने 4 जून, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2025 को समापा वितीय वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर 1 रुपये (अर्थात 10:) के अंतिम लामांश की रिफारिश की है यदि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा लाभांश को मंजूरी दे दी जाती है, तो निर्धारित समय के भीतर उन सदस्यों को लाभांश का भूगतान किया जाएगा जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। मंडल ने लाभांश के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में 20 सितंबर, 2025 को निर्धारित किया है। लाभांश भूगतान हेतू सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से कंपनी का सदस्य रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बही 21 सितंबर, 2025 से 23 सितंबर, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाभांश सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते के विवरण को सत्यापित और अद्यतन

लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी:

शेयरधारक ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961, जिसे वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद कंपनियों द्वारा भूगतान या वितरित लाभांश प्राप्तकर्ता के हाथों में कर योग्य है। इसलिए कंपनी को शेयरधारकों को अंतिम लाभाश क भूगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती करनी होगी। कटौती की जाने वाली कर की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत और कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तायेजो पर निभर करती है।

जिन शेयरधारकों के शेयर डीमैट मोड में हैं और जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी और/या अन्य केवाईसी विवरण पंजीकृत या अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ इसे पंजीकृत और अपडेट करें। वार्षिक आम बैठक की ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्नधशिकायत के लिए आप

1800-309-4001 पर कॉल कर सकते हैं या श्री एन. श्याम कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक- केफिनटेक को einward.ris@kfintech.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के लिए

(दीपक कुमार सिंघल)

(डीआईएन: 01562688)

प्रबंध निदेशक

दिनांक: 03.09.2025 स्थानः लुवियाना

> iotalian इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज लिमिटेड सीआईएन : L73100HR2009PLC126450

> पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : पाँचवीं मंजिल , टावर सी , युनिटेक साइबर पार्क सैक्टर 39, गुरुग्राम, हरियाणा 122001 भारत । दूरभाष:+91-124-4272967 इ-मेल : investors@infollion.com | वेबसाइट : www.infollion.com

16वीं वार्षि क आम बैठक की सूचना — ई—वोटिंग की जानकारी

इसके द्वारा सुधित किया जाता है कि **इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज लिमिटेड ('कंपनी')** के सदस्यों की 16वीं वार्षिक आम बेठक ('एजीएम') शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी । कंपनी अधिनियम, 2013 और उत्राके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रोसिंग 🗸 अन्य दृश्य-- अव्य माध्यमें 'बीसी / ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से (आईएसटी) सामान्य परिपन्न संख्या 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई. 2020, और अन्य प्रासंगिक परिपन्नों के साथ पंतित. जिसमें कॉपॉरेट मानलों के मंत्रालय **('एमसीए')** द्वारा जारी 25 सितंबर, 2023 का सामान्य परिपन्न संख्या 09 / 2023 और भारतीय प्रतिमृति और विनिमय वोर्ड **('सेबी'** हारा जारी 07 अक्टूबर, 2023 के परिपन्न के साथ पठिता 11 जुलाई, 2023 का मारदर परिपन्न और इस मामले पर एमसीए और सेबी (सामृहिक रूप से 16वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के आयोजन की सूचना में निर्धारित कार्य संपादित करने के लिए, सदस्यगण **'एजीएम संबंधी परिप**त्र' के अनुसार कार्य करेंगे। सदस्यगण केवल वी.सी. /ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही 16वीं वार्षिक आमें बैठक में उपस्थित हो सकेंगे । वी.सी. / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की चारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति के लिए गिना जाएगा।

कंपनी ने वार्षिक आम बैठवा (एजीएम) के लिए वीसी सुविधा और ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेत् एमयुएफजी इनटाइम इंडिया प्राइबेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइबेट लिमिटेड) को रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए' / 'एमयूएफजी इनटाइम') के रूप में सेवा प्रवाता नियुक्त किया है। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) संबंधी परिपत्रों के अनुपालन में, 16वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट, बुधवार, 3 सितंबर, 2025 को केवल इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिन्होंने कंपनी / कंपनी के आरटीए या डिपॉजिटरी प्रतिभागियाँ ('डीपी') के साध अपने ईंगेल पते पंजीकृत किए हैं। उपरोक्त दरलायेज, जिसमें रिमोट ई–बोटिंग की प्रक्रिया और तरीके, एखीएम में ई–बोटिंग और वीसी / ओएवीएम के मध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश भी शामिल हैं. कंपनी की वेबसाइट https://investors.infollion.com/16th-annual-general-meeting,, स्टॉक एक्सथेज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और आरटीए की वेबसाइट

https://instavote.linkintime.co.in/ पर उपलब्ध हैं अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूधीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकलाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 और भारतीय कंपनी संचिव संस्थान द्वारा जारी शामान्य बैठकों पर सथिवीय मानकों (एसएस –2) के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों (भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले) को एजीएन की सूचना में निर्वारित किसी एक या समी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('ई--वोटिंग') के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य एमयूएफजी इनटाइम के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फोटफॉर्म का उपयोग करके, यहां--मीचे--उल्लिखित तिथियों पर अपने चोट दूरश्य रूप से ('रिगोट ई--वोटिंग') डाल सकते हैं। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रोनिक रूप से अपना बोट डालने के लिए इवेंट नंबर 250528 का यथन कर सकते हैं एजीएम के दौरान सदस्यों के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की खुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएन में मान लेने वाले सदस्य जिन्हों ने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं उहला है, वे ई—वोटिंग के मध्यम से एजीएम में मतदान

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

क) 16वीं वार्षिक आम बैठक की लूचना में उल्लिखित सभी कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, अर्घात रिमोट हं—बोटिंग या वार्षिक आम बैठक में ई—वोटिंग के माध्यम से किए जाएँगे

ख) रिमोट ई-बोटिंग मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को प्रातः 9:00 बजे (IST) से शुरू होकर **गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को साथं 5:00 बजे (IST)** पर समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय हें बाद रिमोट ई--वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, रादरय को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी । म) १६वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई—बोटिंग या ई—वोटिंग के माध्यम से सतदान करने की

पावता निर्धारित करने की अंतिम तिथि शुक्रवार, 19 सिलंबर, 2025 है ।

कोई भी व्यक्ति जो ईमेल के मध्यम से 16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना मेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है और अंतिम तिथि यानी शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 तक शेयर रखता है, वह 16वीं वार्षिक आम बैतक की सूचना में चल्लिखित निर्देशों का पालन करके या enotices@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध मेजकर या मिम्न नंबरों पर रांपर्क करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है: - दूरभाष: 022-49186000 । हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-बोटिंग के लिए लिंक इनटाइम इस्टाबोट के साथ पहले से पंजीकृत है, तो बोट डालने के लिए मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है ।

 लंदस्य(याँ) के मतदान अधिकार कंपनी की श्रकता इविवटी शेयर पंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो कट-ऑफ तिबि यानी शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को होंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज है, यह योवल एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग / ई—वोटिंग के माध्यम से वोट करने का

हकदार होगा। सदस्यों को एजीएम में ई--बोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी और वे सदस्य जो एजीएम में भाग ले रहे हैं और जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई- वोटिंग द्वारा अपना बोट नहीं खाला है, वे एजीएम में वोट करने के पात्र होंगे।

छ) वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई–बोटिंग द्वारा अपना वोट ढाला है, वे भी वीसी / ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम में फिर से वोट करने के पात्र

ईमेल पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता अधिदेश पंजीकृत / अपडेट करने का तरीका जिन सदस्यों के ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डीपी के पास पहले से पंजीकृत हैं, वे 16वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना में दिए गए दरस्थ ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक में ई-बोटिंग के निर्देशों का पालन

कर सकते हैं 1 जिन सदस्यों ने अपनी इंमेल आई दी पंजीकत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, सुचना आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार उन्हें पंजीकृत करें: भौतिक रूप से – विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर –1 के साथ सहायक दस्तावेज कंपनी के आरटीए--एमयुएफजी इटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एमयुएफजी इटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को, या तो प्लॉट नंबर एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, "नोबल हाइटस" प्रथम तल, एलएससी

सावित्री मार्केट के पास, जनक पुरी, फोन +91-11-49411000 पर उनके कार्यालय में या vishal.dixit@in.mpms.mufg.com पर ईमेल हारा मेजें। उक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.infollion.com पर भी रायलका है। कंपनी के इविवटी शेयर डीमैट रूप में रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ

किसी सदस्य का ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डीपी के साथ पहले से पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेशियल संबंधित सदस्य के पंजीकृत ईमेल आईडी पर 18वीं वार्षिक आग बैठक (एजीएम) की सूचना और वित्त वर्ष 2024—25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ मेले जाएँगे इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से ई-दोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदक्यों से अनुरोध है कि वे एमयुजीएक इनटाइम को enotices@in.moms.mufg.com पर अनुरोध भेजें या कंपनी

अपना ईमेल पता. मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकत / सल्यापित / अपडेंट करें। यदि

राचित्र को investors@infollion.com पर लिखें। इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज लिमिटेड के लिए

हस्ता/— मेघा रस्तोगी कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

रथानः गुरुग्राम

epaper.jansatta.com